



भारतीय थल सेना JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER



www.joinindianarmy.nic.in

अधिकारी प्रविष्टियां

1. निम्नलिखित कोर्सों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

- (क) 66वां अल्पसेवा कमीशन (तकनीकी) कोर्स (पुरुष) अप्रैल 2026 के लिए.
- (ख) 66वां अल्पसेवा कमीशन (तकनीकी) कोर्स (महिला) अप्रैल 2026 के लिए.

2. ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित अवधि तक खुले रहेंगे:-

- (क) अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी) कोर्स- पुरुष- 16 जुलाई से 14 अगस्त 2025.
- (ख) अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी) कोर्स- महिला- 16 जुलाई से 14 अगस्त 2025

OFFICER ENTRIES

1. Applications are invited for the following courses:-

- (a) 66th Short Service Commission (Tech) Men Course Apr 2026.
- (b) 66th Short Service Commission (Tech) Women Course Apr 2026.

2. Online applications will open as under:-

- (a) SSC (Tech) Course- Men -16 Jul to 14 Aug 2025
- (b) SSCW (Tech) Course - Women -16 Jul to 14 Aug 2025

नोट:

- 1. सेना में भर्ती पूर्णतया पारदर्शी और मुफ्त है. दलालों से सावधान रहें.
- 2. विस्तृत नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए, कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

Note:

- 1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
- 2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in.

